



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii).

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 2007/पौष 30, 1928

No. 58]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 2007/PAUSA 30, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2007

का.आ. 60(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1780(अ), तारीख 18 अक्टूबर, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले के अम्बातुर तालुक के 53. कादिरवेडु और 55. पुथागरम गाँवों के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को 13/8 कि.मी. पर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को 12/6 कि.मी. पर जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-II) के निर्माण (निर्माण), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 8 नवम्बर, 2006 को "दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और "दिनामनी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुवल्लूर जिले के अम्बातुर तालुक के कादिरवेडु और पुथागरम गाँवों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-II) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूस्वामी/अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	तिरुवल्लूर	अम्बातुर	53. कादिरवेडु	12/4बी	गैरसरकारी	नम	500	62. अमानीअमाल W/o. केसवन और दूसरे 7
				55/1	गैरसरकारी	मनवारी	1150	21. एल. आर रेडियार S/o. मुरुगप्पा रेडियार
				55/2र2	गैरसरकारी	मनवारी	850	160. मनिका रेडियार S/o. मुरुगप्पा रेडियार
				55/2बी1 बी2	गैरसरकारी	मनवारी	50	2139. मल्लेशवरी W/o. दामोदर रेडडी
				58/2र2	गैरसरकारी	मनवारी	50	133. मुन्नीअमाल और 6 अन्य
				59/1बी1बी	गैरसरकारी	मनवारी	650	48. कृष्णन S/o. मुरुगप्पा रेडडी
				59/2र1बी	गैरसरकारी	मनवारी	300	8. अलगुलु W/o. बालाकृष्णन
				59/1र1बी	गैरसरकारी	मनवारी	2400	9. अन्गु रेडियार(1) राजेशवरी अम्माल (2) अमससम्माल (3)
				59/1बी2बी	गैरसरकारी	मनवारी	200	133. मुनीअम्माल और 6 अन्य
				59/3	गैरसरकारी	मनवारी	100	1476. ई. मधु
				59/4	गैरसरकारी	मनवारी	100	1577. के. पदमिनी
				59/5	गैरसरकारी	मनवारी	100	1523. आर. ए. जगन्नाथन
				59/6	गैरसरकारी	मनवारी	200	1523. आर. ए. जगन्नाथन
				59/7	गैरसरकारी	मनवारी	100	1874. आर. मनी
				60/1बी	गैरसरकारी	मनवारी	1350	49. कृष्णावेनी अम्माल
				60/2र2	गैरसरकारी	मनवारी	300	895. आर. कलाईवानी W/o. नागारथिनम
				60/2बी1बी	गैरसरकारी	मनवारी	1350	288. आर. वेल्लामल W/o. जी. रामदास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				60/2बी2	गैरसरकारी	मनवारी	150	1642. आशा लता W/o. वी. वी. पशुपति
				61/4ए2बी	गैरसरकारी	मनवारी	10	126. आर्यानसामी रेडडी
				61/4बी2	गैरसरकारी	मनवारी	50	399. सेल्वराज S/o. कृष्णा रामानुजा रेडडी
				67/2सी1बी	गैरसरकारी	मनवारी	1100	169. वी. एम. मुरुगेशन
				67/2सी2बी	गैरसरकारी	मनवारी	25	1669. पी. कन्नन S/o. पांडुरंगा मुदलियार
				67/2सी3	गैरसरकारी	मनवारी	50	1670. ऐ. वैकटाचलम S/o. अरुमुगा गौदार
				68/1ए4ए3 बी	गैरसरकारी	नम	1950	51. कृष्णा रेडडी S/o. मुरुगप्पारेडडी
				68/1ए4ए2 बी	गैरसरकारी	नम	1800	133. मुन्नी अम्माल और दूसरे
				68/2ए1बी	गैरसरकारी	नम	1300	80. शनमुगम
				68/1ए3बी	गैरसरकारी	नम	850	134. जयालक्ष्मी W/o. दामोदरन
				68/1ए4ए1 बी	गैरसरकारी	नम	1200	1064. मनीमकालय W/o. दुरायसामी
				68/1ए4सी2	गैरसरकारी	नम	450	144. बालामनीअम्माल W/o. राजगोपाल वेदियार
				68/1बी1ए2	गैरसरकारी	नम	250	160. मनीकारेडडी
				68/2बी	गैरसरकारी	नम	50	1670. ऐ. वैकटाचलम S/o. अरुमुगा गौदार
				68/4	गैरसरकारी	नम	250	1482. के. कन्नाअम्माल
				68/1ए2बी2	गैरसरकारी	नम	50	2149. जी. एस. रामानाथन
				68/1ए4बी	गैरसरकारी	नम	1450	80. शनमुगम
				69/1बी1बी	गैरसरकारी	नम	1000	39. गनेश रेडडी S/o. रामासिगा रेडडी
				69/1बी3	गैरसरकारी	नम	100	1670. ऐ. वैकटाचलम S/o. अरुमुगा गौदार
				69/1सी2	गैरसरकारी	नम	200	1670. ऐ. वैकटाचलम S/o. अरुमुगा गौदार
				69/1सी3	गैरसरकारी	नम	200	876. आरोन
				69/1सी4बी	गैरसरकारी	नम	180	876. आरोन
				69/1बी2बी	गैरसरकारी	नम	150	1669. पी. कन्नन S/o. पांडुरंगन
				69/1सी 1बी	गैरसरकारी	नम	100	876. टी. आरोन S/o. देवदास

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				69/1९1बी	गैरसरकारी	नम	15	875. कौशल्या
				69/2९2	गैरसरकारी	नम	1800	कृष्णावेनी अम्माल W/o. शनमुगम (1) अरुमुगम S/o. नीलागंडन
				71/1९1९2	गैरसरकारी	नम	3600	224. नीलागंडन नटराजन और 5 अन्य
				71/2बी	गैरसरकारी		950	837. कन्ना अम्माल W/o. कंडासामी
				71/3बी	गैरसरकारी	नम	150	185. रानी अम्माल
				71/8बी	गैरसरकारी	नम	100	1562. विट्टल राज S/o. कन्नाबिरान
				71/9बी	गैरसरकारी	नम	70	1724. आर. मनोहरन S/o. रंगानाथन
				71/10बी	गैरसरकारी	नम	75	1725. नलिनी एलियास नलिगादी W/o. आर. एस. वेंकटेशन
				72/1बी	गैरसरकारी	नम	250	1265. नारायणन s/o. रामासामी
				72/1सी	गैरसरकारी	नम	200	1271. जयाभारती W/o. नारायणन
				72/9	गैरसरकारी	नम	250	1506. पेनी धामस S/o. पेनी धामस ऐलेक्जेंडर
				72/1९8	गैरसरकारी	नम	250	161. डॉस और अन्य
				72/14	गैरसरकारी	नम	200	2121. थैमोजी
				72/1डो	गैरसरकारी	नम	250	1272. टी. गौरीशंकर बाबू S/o. अनुमथा राव
				72/1६2	गैरसरकारी	नम	200	1274. टी. गौरीशंकर बाबू
				72/1९६2	गैरसरकारी	नम	50	1274. टी. गौरीशंकर बाबू
				72/13बी	गैरसरकारी	नम	80	2123. एस. सुंदरा अम्माल W/o. कनियप्पन
				72/1९1९2 72/1९1९3	गैरसरकारी	नम	1000 2100	161. डॉस और अन्य सावित्री
				72/2बी2	गैरसरकारी	नम	1100	838. सावित्री
				73/1बी2	गैरसरकारी	नम	15	838. सावित्री W/o. मुन्नुसामी नायडू
				73/2९1९	गैरसरकारी	नम	750	185. रानी अम्माल S/o. चौकायलिंगम
				73/2९2	गैरसरकारी	नम	200	1381. रामानाथन चैल्लाकुलु
				73/2९3	गैरसरकारी	नम	300	1382. रामानाथन चैल्लाकुलु
				73/2९1बी	गैरसरकारी	नम	200	2121. एम. थैमोजी
				73/2९4	गैरसरकारी	नम	150	185. रानी अम्माल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				73/10	गैरसरकारी	नम	100	2121. एम. बैमोजी
				73/2बी2	गैरसरकारी	नम	300	243. मूर्खी (1) किरुबकर (2) रविचन्द्रन (3)
				73/3बी2	गैरसरकारी	नम	100	243. मूर्खी (1) किरुबकर (2) रविचन्द्रन (3)
				76/2सी1ए1 बी	गैरसरकारी	नम	800	225. सेल्वापथी (1) पी. जॉन शनमुगम (2)
				76/2बी1ए1 बी	गैरसरकारी	नम	600	144. बालाजम्माल W/o. राजगोपाल
				76/2बी1 2	गैरसरकारी	नम	50	902. किशोर एन. पटेल (1) महेन्द्रा एन. पटेल (2)
				76/2सी1बी 2	गैरसरकारी	नम	70	902. किशोर एन. पटेल (1) महेन्द्रा एन. पटेल (2)
				76/2ए1ए2	गैरसरकारी	नम	450	97. रंगाजम्माल
				76/2ई2	गैरसरकारी	नम	300	225. सेल्वापथी (1) पी. जॉन शनमुगम (2)
				76/3ए1बी	गैरसरकारी	नम	50	138. जमुनाजम्माल W/o. कृष्णन
				76/3ए2बी	गैरसरकारी	नम	100	1013. अंबु रोज W/o. सी. अंबु रोज
				76/2डी2बी	गैरसरकारी	नम	350	954. जयाचन्द्रा नायडू डेलीबच्चा S/o. डेली बच्चा
				76/2बी1सी	गैरसरकारी	नम	250	903. राओजी बी. पटेल S/o. बीमजी पटेल
				76/2सी1सी	गैरसरकारी	नम	100	903. राओजी बी. पटेल S/o. बीमजी पटेल
				76/2सी1ए2	गैरसरकारी	नम	150	1012. अंबु रोज S/o. एच.एस. चार्ल्स
				76/2सी1ए3	गैरसरकारी	नम	50	1012. अंबु रोज S/o. एच.एस. चार्ल्स
				76/2बी1ए2	गैरसरकारी	नम	100	902. किशोर एन पटेल (1) महेन्द्र एन पटेल (2)
				76/2डी1सी	गैरसरकारी	नम	50	1012. अंबु रोज S/o.
				76/2बी1ए3	गैरसरकारी	नम	100	1012. अंबु रोज S/o.
				76/2डी1बी	गैरसरकारी	नम	100	1012. अंबु रोज S/o.

202 4700-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				76/2डी1ई	गैरसरकारी	नम	50	1012. अंबु रोज S/o. एच.एस. चालर्स
				76/3ए4	गैरसरकारी	नम	50	1012. अंबु रोज S/o. एच.एस. चालर्स
				76/2डी1ए	गैरसरकारी	नम	350	1013. अंबु रोज W/o. सी. अंबु रोज
				76/2डी1डी	गैरसरकारी	नम	50	1012. अंबु रोज S/o. एच.एस. चालर्स
				76/3ए3	गैरसरकारी	नम	50	1013. अंबु रोज W/o. सी. अंबु रोज
				76/2एफ	गैरसरकारी	नम	150	144. बुलीमनी
				77/1बी	गैरसरकारी	नम	750	303. विटोबाई W/o. शेषाद्री
				79/6बी1बी	गैरसरकारी	नम	100	94. सेल्वाराजन और 4
				79/6बी1सी	गैरसरकारी	नम	50	अन्य
				79/6सी2	गैरसरकारी	नम	2000	1560. सेल्वाराज (1) नटराजन (2) बालसुब्रमण्यम (3)
				79/6डी	गैरसरकारी	नम	1300	94. सेल्वाराजन और 4 अन्य
				107/6बी	गैरसरकारी	मनवारी	450	85. संबासिवम S/o. सेनगुप्ता रेडडी
				107/7ए2	गैरसरकारी	मनवारी	1550	85. संबासिवम S/o. सेनगुप्ता रेडडी
				108/2ए1ए3 बी	गैरसरकारी	मनवारी	150	154. बब्बीअम्माल (1) वेंकटेशन (2)
				108/2बी1 सी2	गैरसरकारी	मनवारी	90	1652. अरुमुगम
				108/1सी3 बी	गैरसरकारी	मनवारी	50	100. सेनगुप्ता रेडडी S/o. चिनइया रेडडी
				109/1ए1बी 1बी	गैरसरकारी	मनवारी	300	14. वी. अर्जुन
				109/3ए1बी	गैरसरकारी	मनवारी	250	39. गणेश रेडडी
				110/2ए2	गैरसरकारी	मनवारी	250	187. राधा अम्माल
				114/1ए1बी	गैरसरकारी	मनवारी	150	77. सी. गोविन्द राज
				114/1ए2बी	गैरसरकारी	मनवारी	150	2105. पदमावती
				115/1बी	गैरसरकारी	मनवारी	2750	59. आर. कुप्पामल
				116/2बी	गैरसरकारी	मनवारी	1050	1869. चन्द्राशेखर
				116/1बी2 बी	गैरसरकारी	मनवारी	100	1542. एस. मुरुगेशन
				116/1बी1 बी	गैरसरकारी	मनवारी	900	76. एस. गोविन्दाराज

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				116/1ए1बी	गैरसरकारी	मनवारी	500	119. कामाची अम्माल
				116/6बी	गैरसरकारी	मनवारी	30	1697. विमलानाथन S/o. बालाकृष्णन
				116/7	गैरसरकारी	मनवारी	50	1698. अरुमुगम (1) राजेशवरी (2)
				116/8	गैरसरकारी	मनवारी	100	1699. आर. युवराज S/o. राजेन्द्रन
				117/2ए2ए2	गैरसरकारी	मनवारी	50	203. के. पार्थासारथी
				120/2ए1बी	गैरसरकारी	मनवारी	1700	35. लक्ष्मीअम्माल
				120/1बी2	गैरसरकारी	मनवारी	1450	1875. सम्पथ S/o. विनारमन
				120/2बी	गैरसरकारी	मनवारी	200	1337. एस. सुदर्शन
				120/2ए3	गैरसरकारी	मनवारी	200	1607. लेगाराय
				120/2ए2	गैरसरकारी	मनवारी	200	1412. थिरुमारन S/o. अन्नामलाय
				120/1ए1बी	गैरसरकारी	मनवारी	15	60. एस. कुप्पु
				121/2ए2बी	गैरसरकारी	मनवारी	750	110. दामोदरन
				121/2बी2	गैरसरकारी	मनवारी	300	148. के. पपाथी
				121/1ए1बी	गैरसरकारी	मनवारी	400	148. पपाथी
				121/1ए2बी	गैरसरकारी	मनवारी	150	1653. आर. सेशाचलम S/o. राधवापिल्लै
				121/1बी2	गैरसरकारी	मनवारी	300	1784. आर. कृष्णन
				121/1सी2	गैरसरकारी	मनवारी	100	218. गुरुलिंगा रेड्डी
				121/2ए1	गैरसरकारी	मनवारी	400	2146. नन्दनार S/o. ऐ. देवराजन
				121/3बी1	गैरसरकारी	मनवारी	800	178. एस. कुप्पु
				121/3बी2	गैरसरकारी	मनवारी	200	2103. एस. परिमला
				121/3बी3	गैरसरकारी	मनवारी	300	2104. जी. सेल्वम
				121/3ए	गैरसरकारी	मनवारी	150	149. एस. श्रीदेवी
				122/2	गैरसरकारी	Dry	350	149. ऐ. पार्थासारथी
		(2) 55. पुथागरम		12/5सी2	गैरसरकारी	नम	300	325. बाबु S/o. दुरयस्वामी
				12/6बी	गैरसरकारी	नम	200	2116. पी. रजनी W/o. रंगानाथन
				12/8ए2	गैरसरकारी	नम	520	3279. एस.आर. कोठान्धारमन S/o. रामाचन्द्रन
				12/8बी	गैरसरकारी	नम	300	3279. एस.आर. कोठान्धारमन S/o. रामाचन्द्रन
				12/8सी	गैरसरकारी	नम	280	3280. के. पुनीथावल्ली W/o. एस.आर. कोठान्धारमन
				12/9ए	गैरसरकारी	नम	1050	426. राठीनम्माल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				12/9बी	गैरसरकारी	नम	100	183. वी. वसन्थाडी W/o. डी. विजयासाय
				12/10बी	गैरसरकारी	नम	1650	394. डी. मुनीअम्माल W/o. ईलुमलाय रेडडी
				13/1र2	गैरसरकारी	नम	20	393. मुन्नासामी नायडू S/o. दुरासामी नायडू
				13/1डी2	गैरसरकारी	नम	1600	325. बाबू S/o. दुरासामी
				13/1इ	गैरसरकारी	नम	100	519. वेंकटेशन S/o. दुरासामी नायडू
				13/2र2	गैरसरकारी	नम	950	519. वेंकटेशन S/o. दुरासामी नायडू
				13/2बी2	गैरसरकारी	नम	70	519. वेंकटेशन S/o. दुरासामी नायडू
				13/2सी2	गैरसरकारी	नम	73	519. वेंकटेशन S/o. दुरासामी नायडू
				13/3बी	गैरसरकारी	नम	850	93. किस्ताअम्माल W/o. वेनुगोपाल
				13/4बी	गैरसरकारी	नम	1400	175. साबासिवम S/o. रोनगुप्ता रेडडी
				13/5बी	गैरसरकारी	नम	400	520. Venkatesan s/o. रथीना नायडू
				13/6बी	गैरसरकारी	नम	1800	104. कुपुमल W/o. राधवलू नायडू
				13/7बी	गैरसरकारी	नम	1000	393. मुन्नासामी नायडू S/o. दुरासामी नायडू
				14/1बी	गैरसरकारी	नम	1050	149. शनमुगम S/o. जयारामन
				14/4बी	गैरसरकारी	नम	1900	377. माधवाररेडडी S/o. चिथान रेडडी
				14/5र2	गैरसरकारी	नम	400	395. मुन्नासामी S/o. सैगप्पा नायडू
				14/5बी	गैरसरकारी	नम	100	395. मुन्नासामी S/o. सैगप्पा नायडू
				14/6बी	गैरसरकारी	नम	100	325. बाबू S/o. दुरासामी
				14/7र1	गैरसरकारी	नम	800	228. सेत्वारराज रेडडी S/o. कृष्ण रेडडी समानुज रेडडी
				14/7र2	गैरसरकारी	नम	100	2939. भास्कर (1) राजेशवरी (2)
				14/7बी	गैरसरकारी	नम	50	2486. जे. शंकर S/o. जयारामन
				14/8र1	गैरसरकारी	नम	2650	559. नन्दगोपाल और 4 अन्य
				14/8र2	गैरसरकारी	नम	150	2785. मुन्नासामी S/o. सैगप्पा नायडू
				14/8बी	गैरसरकारी	नम	50	2485. टी. मानीवल्लन S/o. थंगावेल नाथर
				14/8सी	गैरसरकारी	नम	50	2486. जे. शंकर S/o. जयारामन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				14/9बी	गैरसरकारी	नम	750	541. जयकुमार
				14/9ए2	गैरसरकारी	नम	150	3162. आर. कृष्णसामी S/o. राजगोपाल
				14/9बी2	गैरसरकारी	नम	100	2487. श्रीमथी W/o. आर. इथिराजन
				14/13ए2	गैरसरकारी	नम	172	217. गीथा W/o. अरुनाचलम
				14/13ए3	गैरसरकारी	नम	80	217. गीथा W/o. अरुनाचलम
				14/13बी2	गैरसरकारी	नम	200	3162. आर. कृष्णसामी S/o. राजगोपाल
				14/13सी2	गैरसरकारी	नम	170	3164. जी. वसन्थी W/o. कृष्णसामी
				14/14ए2	गैरसरकारी	नम	500	1949. ऐ. गीथा W/o. अरुनाचलम
				14/14बी2	गैरसरकारी	नम	600	1950. एम. इम्बावल्ली W/o. टी. मनोहर
				14/16	गैरसरकारी	नम	200	3162. ऐ. कृष्णसामी S/o. राजगोपाल
				14/17	गैरसरकारी	नम	100	3163. लक्ष्मनन S/o. कदारकराय नाडार
				14/18	गैरसरकारी	नम	200	3162. ऐ. कृष्णसामी S/o. राजगोपाल
				17/1ए2	गैरसरकारी	नम	750	752. सरस्वती अम्मल
				48/1बी	गैरसरकारी	नम	10	261. धुलुकाना रेडडी S/o. नेनइयप्पा रेडडी

[फा. सं. भाराप्र/13012/4/98-पीआई/3डी/सीबीपी-पुथागरम-II/एलाए/एसपी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2007

S.O. 60(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1780(E), dated the 18th October, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under Sub-section (1) of the Section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the land, specified in the Schedule annexed to the said notification for building (construction) maintenance, management and operation of Chennai By Pass (Phase-II) connecting National Highway No. 4 at Km. 13/8 and National Highway No. 5 at Km. 12/6 in respect of 53. Kadirvedu and 55. Puthagaram villages of Ambathur Taluk, Thiruvallur District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in "The New Indian Express" and "Dhinamani", both dated the 8th November, 2006, under Sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And, whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And, whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

20207-3

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for Chennai Bypass (Phase-II), connecting National Highway No.4 and National Highway No.5, in Kadirvedu and Puthagaram villages of District Thiruvallur in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the owner/interested person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Thiruvallur	Ambathur	53. Kadirvedu	12/4B	Private	Wet	500	62. Ammaniammal W/o. Kesavan and 7 others
				55/1	Private	Manavari	1150	21. L.R. Reddiar S/o. Murugappa Reddiar
				55/2A2	Private	Manavari	850	160. Manicka Reddiar S/o. Murugappa Reddiar
				55/2B1B2	Private	Manavari	50	2139. Malleeswari W/o. Damodara Reddy
				58/2A2	Private	Manavari	50	133. Muniammal and 6 others
				59/1B1B	Private	Manavari	650	48. Krishnan S/o. Murugappa Reddy
				59/2A1B	Private	Manavari	300	8. Alamulu W/o. Balakrishnan
				59/1A1B	Private	Manavari	2400	9. Angu Reddiar (1) Rajeshwariammal (2) Amsammal (3)
				59/1B2B	Private	Manavari	200	133. Muniammal and 6 others
				59/3	Private	Manavari	100	1476. E. Madhu
				59/4	Private	Manavari	100	1577. K. Padmini
				59/5	Private	Manavari	100	1523. R. A. Jagannathan
				59/6	Private	Manavari	200	1523. R. A. Jagannathan
				59/7	Private	Manavari	100	1874. R. Mani
				60/1B	Private	Manavari	1350	49. Krishnaveni Ammal
				60/2A2	Private	Manavari	300	895. R. Kalavani W/o. Nagarathinam
				60/2B1B	Private	Manavari	1350	288. R. Chellammal W/o. G. Ramadoss
				60/2B2	Private	Manavari	150	1642. Asha Latha W/o. V.V. Pasupathi
				61/4A2B	Private	Manavari	10	126. Narayanasamy Reddy
				61/4B2	Private	Manavari	50	399. Selvaraj S/o. Krishna Ramanuja Reddy

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				67/2C1B	Private	Manavari	1100	169. V.M. Murugesan
				67/2C2B	Private	Manavari	25	1669. P. Kannan S/o. Pandu Ranga Mudaliar
				67/2C3	Private	Manavari	50	1670. A. Venkatachalam S/o. Arumuga Goundar
				68/1A4A3 B	Private	Wet	1950	51. Krishna Reddy S/o. Murugappa Reddy
				68/1A4A2 B	Private	Wet	1800	133. Muniyammal and others
				68/2A1B	Private	Wet	1300	80. Shanmugam
				68/1A3B	Private	Wet	850	134. Jayalakshmi W/o. Damodaran
				68/1A4A1 B	Private	Wet	1200	1064. Manimekalai. W/o. Dukaisamy
				68/1A4C2	Private	Wet	450	144. Balamaniammal W/o. Rajagopal chettiar
				68/1B1A2	Private	Wet	250	160. Manicka Reddy
				68/2B	Private	Wet	50	1670. A. Venkatachalam S/o. Arumuga Goundar
				68/4	Private	Wet	250	1482. K. Kannammal
				68/1A2B2	Private	Wet	50	2149. G.S. Ramanathan
				68/1A4B	Private	Wet	1450	80. Shanmugam
				69/1B1B	Private	Wet	1000	39. Ganesa Reddy S/o. Ramalinga Reddy
				69/1B3	Private	Wet	100	1670. A. Venkatachalam S/o. Arumuga Goundar
				69/1C2	Private	Wet	200	1670. A. Venkatachalam S/o. Arumuga Goundar
				69/1C3	Private	Wet	200	876. Aaron
				69/1C4B	Private	Wet	180	876. Aaron
				69/1B2B	Private	Wet	150	1669. P. Kannan S/o. Pandurangan
				69/1C1B	Private	Wet	100	876. T. Aaron S/o. Devadoss
				69/1A1B	Private	Wet	15	875 Kousalya
				69/2A2	Private	Wet	1800	Krishnaveni Ammal W/o. Shanmugam (1) Arumugam S/o Neelagandan
				71/1A1A2	Private	Wet	3600	224. Natarajan and five others
				71/2B	Private	Wet	950	837. Kannammal W/o. Kandasamy

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				71/3B	Private	Wet	150	185. Raniammal
				71/8B	Private	Wet	100	1562. Vital Raj S/o. Kannabiran
				71/9B	Private	Wet	70	1724. R. Manoharan S/o. Ranganathan
				71/10B	Private	Wet	75	1725. Nalini alias Nalinatchi W/o. R. Venkatesan
				72/1B	Private	Wet	250	1265. Narayanan s/o. Ramasamy
				72/1C	Private	Wet	200	1271. Jayabarathi W/o. Narayanan
				72/9	Private	Wet	250	1506. Penny Thomas S/o. Thomas Alexander
				72/1A8	Private	Wet	250	161. Doss and othes
				72/14	Private	Wet	200	2121. Thenmozhi
				72/1D	Private	Wet	250	1272. T. Gowri Sankarababu S/o. Anumantha Rao
				72/1B2	Private	Wet	200	1274. T. Gowrisankara Babu
				72/1F2	Private	Wet	50	1274. T. Gowrisankara Babu
				72/13B	Private	Wet	80	2123. S. Sundarammal W/o. Kannaiappan
				72/1A1A2	Private	Wet	1000	161. Doss and others
				72/1A1A3			2100	
				72/2B2	Private	Wet	1100	838. Savithri
				73/1B2	Private	Wet	15	838. Savithri W/o. Munusamy Naidu
				73/2A1A	Private	Wet	750	185. Raniammal S/o. Chokkalingam
				73/2A2	Private	Wet	200	1381. Ramanathan Chellakulla
				73/2A3	Private	Wet	300	1382. Ramanathan Chellakulla
				73/2A1B	Private	Wet	200	2121. M. Thenmozhi
				73/2A4	Private	Wet	150	185. Raniammal
				73/10	Private	Wet	100	2121. M. Thenmozhi
				73/2B2	Private	Wet	300	243. Moorthy (1) Kirubakar (2) Ravichandran (3)
				73/3B2	Private	Wet	100	243. Moorthy (1) Kirubakar (2) Ravichandran (3)
				76/2C1A1 B	Private	Wet	800	225. Selvapathi (1) P. John Sugunamani (2)
				76/2B1A1 B	Private	Wet	600	144. Balamaniammal W/o. Rajagopal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				76/2B1B2	Private	Wet	50	902. Kishor N. Patel (1) Mahendra N. Patel (2)
				76/2C1B2	Private	Wet	70	902. Kishor N. Patel (1) Mahendra N. Patel (2)
				76/2A1A2	Private	Wet	450	97. Rangammal
				76/2E2	Private	Wet	300	225. Selvapathi (1) P. John Sugunamani (2)
				76/3A1B	Private	Wet	50	138. Jamunammal W/o. Krishnan
				76/3A2B	Private	Wet	100	1013. Anbu Rose W/o. C. Anbu Rose
				76/2D2B	Private	Wet	350	954. Jayachandra Naidu S/o. Delli Batcha
				76/2B1C	Private	Wet	250	903. Raoji B. Patel S/o. Beemji Patel
				76/2C1C	Private	Wet	100	903. Raoji B. Patel S/o. Beemji Patel
				76/2C1A2	Private	Wet	150	1012. Anbu Rose S/o. H.S. Charles
				76/2C1A3	Private	Wet	50	1012. Anbu Rose S/o. H.S. Charles
				76/2B1A2	Private	Wet	100	902. Kishor N. Patel (1) Mahendra N. Patel (2)
				76/2D1C	Private	Wet	50	1012. Anbu Rose S/o. H.S. Charles
				76/2B1A3	Private	Wet	100	1012. Anbu Rose S/o. H.S. Charles
				76/2D1B	Private	Wet	100	1013. Anbu Rose W/o. C. Anbu Rose
				76/2D1E	Private	Wet	50	1012. Anbu Rose S/o. H.S. Charles
				76/3A4	Private	Wet	50	1012. Anbu Rose S/o. H.S. Charles
				76/2D1A	Private	Wet	350	1013. Anbu Rose W/o. C. Anbu Rose
				76/2D1D	Private	Wet	50	1012. Anbu Rose S/o. H.S. Charles
				76/3A3	Private	Wet	50	1013. Anbu Rose W/o. C. Anbu Rose
				76/2F	Private	Wet	150	144. Balamani
				77/1B	Private	Wet	750	303. Vitiobai W/o. Seshathri
				79/6B1B 79/6B1C	Private	Wet	100 50	94. Selvarajan and four others
				79/6C2	Private	Wet	2000	1560. Selvaraj (1) Natarajan (2) Balasubramanian (3)
				79/6D	Private	Wet	1300	94. Selvarajan and four others

202 41/67-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				107/6B	Private	Manavari	450	85 Sambasivam S/o. Sengappa Reddy
				107/7A2	Private	Manavari	1550	85 Sambasivam S/o. Sengappa Reddy
				108/2A1A 3B	Private	Manavari	150	154. Babiammal (1) Venkatesan (2)
				108/2B1C 2	Private	Manavari	90	1652. Arumugam
				108/1C3B	Private	Manavari	50	160. Sengappa Reddy S/o. chinnaiah Reddy
				109/1A1B 1B	Private	Manavari	300	14. V. Arjunan
				109/3A1B	Private	Manavari	250	39. Ganesa Reddy
				110/2A2	Private	Manavari	250	187. Radha Ammal
				114/1A1B	Private	Manavari	150	77. C. Govindaraj
				114/1A2B	Private	Manavari	150	2105. Padmavathi
				115/1B	Private	Manavari	2750	59. R. Kupparammal
				116/2B	Private	Manavari	1050	1869. Chandrasekar
				116/1B2B	Private	Manavari	100	1542. S. Murugesan
				116/1B1B	Private	Manavari	900	76. S. Govindaraj
				116/1A1B	Private	Manavari	500	119. Kamatchi Ammal
				116/6B	Private	Manavari	30	1697 Vimalanathan S/o. Balakrishnan
				116/7	Private	Manavari	50	1698 Arumugam (1) Rajeshwari (2)
				116/8	Private	Manavari	100	1699. R. Yuvaraj S/o. Rajendran
				117/2A2A 2	Private	Manavari	50	203 K. Parthasarathi
				120/2A1B	Private	Manavari	1700	35. Lakshmiammal
				120/1B2	Private	Manavari	1450	18/5. Sampath S/o. Chinaraman
				120/2B	Private	Manavari	200	1337. S. Sudarsan
				120/2A3	Private	Manavari	200	1607. Legarai
				120/2A2	Private	Manavari	200	1412. Thirumaran S/o. Annamalai
				120/1A1B	Private	Manavari	15	60. S. Kuppu
				121/2A2B	Private	Manavari	750	110. Damodaran
				121/2B2	Private	Manavari	300	148. K. Papathi
				121/1A1B	Private	Manavari	400	148. Pappathi
				121/1A2B	Private	Manavari	150	1653. R. Seshachalam S/o. Ragavapillai
				121/1B2	Private	Manavari	300	1784. R. Krishnan
				121/1C2	Private	Manavari	100	218. Gurlinga Reddy
				121/2A1	Private	Manavari	400	2146. Nandanar S/o. A. Devarajan
				121/3B1	Private	Manavari	800	178. S. Kuppu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				121/3B2	Private	Manavari	200	2103. S. Parimala
				121/3B3	Private	Manavari	300	2104. G. Selvam
				121/3A	Private	Manavari	150	149. S. Sridevi
				122/2	Private	Dry	350	149. A. Parthasarathi
		(2) 55. Puthagaram		12/5C2	Private	Wet	300	325. Babu S/o. Duraismay
				12/6B	Private	Wet	200	2116. P. Rajini W/o. Ranganathan
				12/8A2	Private	Wet	520	3279. S.R. Kothandaraman S/o. Ramachandran
				12/8B	Private	Wet	300	3279. S.R. Kothandaraman S/o. Ramachandran
				12/8C	Private	Wet	280	3280. K. Punithavalli W/o. S.R. Kothandaraman
				12/9A	Private	Wet	1050	426. Rathinammal
				12/9B	Private	Wet	100	183. V. Vasantha W/o. D. Vijayasai
				12/10B	Private	Wet	1650	394. Muniarninal W/o. Elumalai Reddy
				13/1A2	Private	Wet	20	393. Munusamy Naidu S/o. Duraismay Naidu
				13/1D2	Private	Wet	1600	325. Babu S/o. Duraismay
				13/1E	Private	Wet	100	519. Venkatesan S/o. Duraismay Naidu
				13/2A2	Private	Wet	950	519. Venkatesan S/o. Duraismay Naidu
				13/2B2	Private	Wet	70	519. Venkatesan S/o. Duraismay Naidu
				13/2C2	Private	Wet	73	519. Venkatesan S/o. Duraismay Naidu
				13/3B	Private	Wet	850	93. Kishtammal W/o. Venugopal
				13/4B	Private	Wet	1400	175. Sambasivam S/o. Sengappa Reddy
				13/5B	Private	Wet	400	520. Venkatesan s/o. Rathina Naidu
				13/6B	Private	Wet	1800	104. Kupppammal W/o. Ragayalu Naidu
				13/7B	Private	Wet	1000	393. Munusamy Naidu S/o. Duraismay Naidu
				14/1B	Private	Wet	1050	149. Shanmugam S/o. Jayaraman
				14/4B	Private	Wet	1900	377. Madhava Reddy S/o. Chiyan Reddy
				14/5A2	Private	Wet	400	395. Munusamy S/o. Sengappa Naidu
				14/5B	Private	Wet	100	395. Munusamy S/o. Sengappa Naidu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				14/6B	Private	Wet	100	325. Babu S/o Duraisamy
				14/7A1	Private	Wet	800	228. Selvaraj S/o. Krishna Ramanuja Reddy
				14/7A2	Private	Wet	100	2939. Baskar (1) Rajeshwari (2)
				14/7B	Private	Wet	50	2486. J. Shankar S/o. Jayaraman
				14/8A1	Private	Wet	2650	559. Nandagopal and four others
				14/8A2	Private	Wet	150	2785. Munusamy S/o. Sengappa Naidu
				14/8B	Private	Wet	50	2485. T. Manivannan S/o. Thangavel Nadar
				14/8C	Private	Wet	50	2486. J. Shankar S/o. Jayaraman
				14/9A1B	Private	Wet	750	541. Jayakumar
				14/9A2	Private	Wet	150	3162. R. Krishnasamy S/o. Rajagopal
				14/9B2	Private	Wet	100	2487. Srimathi W/o R. Ethirajan
				14/13A2	Private	Wet	172	217. Geetha W/o. Arunachalam
				14/13A3	Private	Wet	80	217. Geetha W/o. Arunachalam
				14/13B2	Private	Wet	200	3162. R. Krishnasamy S/o. Rajagopal
				14/13C2	Private	Wet	170	3164. G. Vasanthi W/o. Krishnasamy
				14/14A2	Private	Wet	500	1949. A. Geetha W/o. Arunachalam
				14/14B2	Private	Wet	600	1950. M. Inbavalli W/o. T. Manohar
				14/16	Private	Wet	200	3162. A. Krishnasamy S/o. Rajagopal
				14/17	Private	Wet	100	3163. Lakshmanan S/o. Kadarkarai Nadar
				14/18	Private	Wet	200	3162. A. Krishnasamy S/o. Rajagopal
				17/1A2	Private	Wet	750	752. Saraswathiammal
				48/1B	Private	Wet	10	261. Thulukana Reddy S/o. Nainiyappa Reddy

[E. No. NHAI/13012/4/98-PI/3D/CBP-Puthagaram-II/LA/SP]

PRABHAKAR, Dy. Secy.